

शांति चाहनेवालों की खोज!

(लूका 10:6)

Capo fret 2 C F C G D A

‘याह का व - चन सुन ले ज - हाँ त - माम!’ हु - कुम यी -
लाख चा - हैं तो भी वक्त रु - के न - हीं, रु - के हम

शु का था, उस - ने दि - लो - जाँ से कि - या वो काम।
भी भ - ला कै - से स - भी की जा - ने हैं कीम - ती।

प्यार वो कर - ता था यह की भे - डँ से, सु - बह से
प्यार कह - ता है फिर उन - से जा - के मिल, सु - ल - गा मर -

शाम उन - हें ज्वै - द्वा, दर - ब - दर चल के। हम भी ख - बर दे -
हम, पा - ए चैन वो, जा - ए फिर से खिल। मि - ले जब भी नेक -

ते य - हाँ, छट जा - ए - गी गम की घ - टा, बर -
दिल को - ई, भर जा - ती है दिल में खु - शी, ऐ -

सा - ए - गा जल्द हम पे बर - क - तै याह।
सी खु - शी पा - ने को हम हैं बे - ताब।

कोरस C G Am Bm F G

खो - जें उन - हें जो सच की राह पे चल - ना चा - हैं।

शां - ति - प - संद, जो याह से रिश - ता जोड - ना चा - हैं।

को - इ क - सर ना छो - डँ हम।